

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 549]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 नवम्बर 2014—अग्रहायण 8, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2014

फा. क्र. 17(ई)-261-2014-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) हेतु नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को नगरीय निकायों निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.

सेक्टर मजिस्ट्रेट की सूची जिन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदत्त की जाना है.
दिनांक 27-11-2014 से दिनांक 2-12-2014 के लिए

क्र. (1)	सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम (2)	नगरपालिका/नगर परिषद् का नाम (3)	सेक्टर क्रमांक (4)
1	श्री पी. एल. अहिरवार, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, 09993792283.	नगर परिषद्, वल्देवगढ़	02 वल्देवगढ़
2	श्री अनिल गुप्ता, सहा. अधी., भू-अभिलेख एवं प्र. नायब तहसीलदार, दिगौडा, 9907553355.	नगर परिषद्, खरगापुर	02 खरगापुर
3	श्री पी.डी. गुप्ता, सहा. अधी., भू-अभिलेख एवं प्र. नायब तहसीलदार, तरीचरकलां, 9926267797.	नगर परिषद्, तरीचरकलां	01 तरीचरकलां
4	श्री रविन्द्र सूर्यवंशी, सहा. अधी., भू-अभिलेख, 9993768805.	नगर परिषद्, जैरोन	01 जैरोन खालसा

ए. पी. खेर, उपसचिव.